

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 23—मई 29, 2015 (ज्येष्ठ 2, 1937)

No. 21]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23—MAY 29, 2015 (JYAISTHA 2, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की
नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the
Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2015

सं. 15011/52/2015—एच.आर. III—राष्ट्रपति, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 7(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायविद् श्री सिरियक जोसफ को दिनांक 13 मई, 2015 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य निष्पादन करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं।

विजय सिंह राणा, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 17 दिसम्बर 2014

सं. ए—19013/08/2014—प्र.सु. (प्रशा. I)—राष्ट्रपति, सुश्री अल्पना शुक्ला राव, (आईटीएस : 1994) को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर निदेशक नियुक्त करते हैं।

आलोक जगभरिया, अवर सचिव

दिनांक 9 अप्रैल 2015

सं. ए-19014/03/2014-प्र.सु. (प्रशा. I)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13 मार्च, 2015 के कार्यालय आदेश सं. 5/3/2014-सीएस. I(यू) के अनुसरण में श्री डी. बनर्जी, अवर सचिव को दिनांक 01.04.2015 के पूर्वाह्न से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की पद संख्या में अवर सचिव के रूप में शामिल किया जाता है।

आलोक जगभरिया, अवर सचिव

दिनांक 24 अप्रैल 2015

सं. ए-19014/01/2015-प्र.सु. (प्रशा. I)—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09 अप्रैल, 2015 के आदेश सं. 5/3/2015-सीएस. I(यू) के अनुसरण में श्री दीन दयाल को दिनांक 09.04.2015 की पूर्वाह्न से अगले आदेश तक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

आलोक जगभरिया, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2015

सं. ए-35011/7/2013-एडी.ईडी—भारत के राष्ट्रपति, श्री संजय श्रीनेत, भारतीय राजस्व सेवा (सी.शु. एवं के.उ.शु. : 1993), को दिनांक 21.01.2015 (अपराह्न) से 21.01.2020 (अपराह्न) तक पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 37,400—67,000/— रु. + ग्रेड वेतन 10,000/— रु. के वेतन बैंड 4 में प्रवर्तन निदेशालय चंडीगढ़ में विशेष प्रवर्तन निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 2015

सं. ए-12011/5/2012-प्रशा. II—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.03.2015 के आदेश सं. 5/03/2015-सीएस. I(यू) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी श्रीमती शोभा बासिल को 27.3.2015 से पूर्णतः तदर्थ आधार पर 31.05.2015 की अवधि तक के लिए अथवा नियमित आधार पर पदों के भरे जाने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण के उपर्युक्त संदर्भित आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

अभय कुमार शरण, अवर सचिव

सं. ए-12011/03/2015-प्रशा. II—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.02.2015 के आदेश सं. 4/2/2015-सीएस. I(डी) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अवर सचिव, श्री राम प्रकाश पुरी को रु. 7,600/— ग्रेड वेतन सहित (रु. 15,600—39,100/—) वेतन बैंड-3 में तदर्थ आधार पर 02 मार्च, 2015 के पूर्वाह्न से 30.06.2015 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, चयन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

अभय कुमार शरण, अवर सचिव

दिनांक 16 अप्रैल 2015

सं. ए-19011/03/2015-प्रशा. II—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.03.2015 के आदेश सं. 18/8/2014-ईओ(एमएम-I) के अनुसरण में, श्री ऋषिकेश सिंह, भारतीय डाक सेवा : 2000 को 37,400—67,000/— + 8,700/— के वेतन बैंड में 01 अप्रैल, 2015 के पूर्वाह्न से 31.03.2020 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

अभय कुमार शरण, अवर सचिव

दिनांक 23 अप्रैल 2015

सं. ए-19011/05/2015-प्रशा.II—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की तारीख 01.04.2015 के आदेश सं. ए-33/5/2015-ईओ (एसएम-1) (8) के अनुसरण में, श्री एस. सेल्वकुमार, भा.प्र.से. (कर्नाटक : 97) को 15.04.2015 के पूर्वाह्न से उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि के लिए अर्थात् 03.07.2019 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

अभय कुमार शरण, अवर सचिव

सं. ए-12011/03/2015-प्रशा.II—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की तारीख 01.04.2015 के आदेश सं. ए-33/5/2015-ईओ (एसएम-1) (9) के अनुसरण में, श्री राज कुमार, भा.प्र.से. (गुजरात : 87) को 20.04.2015 के पूर्वाह्न से 19.04.2020 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

अभय कुमार शरण, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 2015

सं. 2015, फा. सं. ए-46011/05/2006-स्थापना—राष्ट्रपति, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर श्री विजयधर चौबे, सहायक निदेशक ग्रेड-I (लागत निर्धारण) को वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई में पदोन्नति आधार पर उप निदेशक (लागत निर्धारण) ग्रेड-ए राजपत्रित, के पद पर पे बैंड-3 में 15,600—39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 6,600/- रु. के वेतनमान में दिनांक 01 अप्रैल, 2015 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। वह दिनांक 01.04.2015 से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

ईश्वर शरण, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2015

सं. 22012/1/2014-स्था. 1—राष्ट्रपति द्वारा श्री सुभाशीष पांडा, भा. प्र. से. (हि. प्र. 1997) को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर वेतन बैंड-4 (37,400/- रुपये—67,000/- रुपये) + ग्रेड वेतन 10,000/- रुपये में दिनांक 07.04.2015 के पूर्वाह्न से उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की पांच वर्ष की शेष अवधि अर्थात् दिनांक 19.02.2019 तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया जाता है।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 16 अप्रैल 2015

सं. 12022/1/2014-स्था. 1—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 9/1/2015-ई.ओ. (एम एम-1) दिनांक 06.02.2015 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्रीमती सिमरजीत कौर, आई.डी.ए.एस. (1991) को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में निदेशक के पद पर वेतन बैंड-4 (37,400—67,000/- रुपये) + ग्रेड वेतन 8,700/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 16.04.2015 के पूर्वाह्न से पांच साल के लिए अथवा अगले आदेश, जो भी पहले घटित हो, तक नियुक्त किया जाता है।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 28 अप्रैल 2015

सं. 12022/1/2014-स्था. 1—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 9/12/2015-ई.ओ. (एम एम-1) दिनांक 17.03.2015 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री दिनेश कुमार गुप्ता, आई.टी.एस. (2000) को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में निदेशक के पद पर वेतन बैंड-4 (37,400—67,000/- रुपये) + ग्रेड वेतन 8,700/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 27.04.2015 के पूर्वाह्न से पांच साल के लिए अथवा अगले आदेश, जो भी पहले घटित हो, तक नियुक्त किया जाता है।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 5 मई 2015

सं. 12015/02/2015-ई.-1—राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को इस अधिसूचना की तारीख से चयन सूची वर्ष 2014 में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है :—

क्रम सं.	नाम
1.	श्रीमती रंजना शर्मा
2.	श्रीमती सी. बेबी उषा

क्रम सं.	नाम
3.	श्रीमती विजय बाम्बा
4.	श्री जगदीश कुमार

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

सं. ए-43011/3/2008-ई-1—सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. 12016/1/2014-एस.एस.एस. दिनांक 06.04.2015 और 16.04.2015 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा एस.एस.एस. के निम्नलिखित अधिकारियों को वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में उनके नाम के समक्ष उल्लिखित रिक्त कैलेंडर वर्ष के विरुद्ध वेतन बैंड-2 अर्थात् 9,300—34,800/- रु + 4,600/- रु. के ग्रेड वेतन में दिनांक 07 अप्रैल, 2015 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है :—

क्रम सं.	नाम	रिक्त कैलेंडर वर्ष
1.	श्री अवनीश कुमार	2012
2.	श्री मिथिलेश कुमार सिंह	2013

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2015

सं. ए-12025/8/2013-एस.ए. (भाग)—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री ब्रजेश सिंह को उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर में 15,600—39,100/- रुपये के वेतनमान (पीबी-3) तथा 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती आधार पर तकनीकी अधिकारी (उपकरण इंजीनियरी) सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह “क” राजपत्रित पद पर दिनांक 01.07.2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त किया जाता है। वह दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

जितेंद्र जुयाल, अवर सचिव

सं. ए-12025/9/2013-एस.ए. (भाग)—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री विनय कुमार को उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर में 15,600—39,100/- रुपये के वेतनमान (पीबी-3) तथा 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती आधार पर सहायक प्रोफेसर, शर्करा इंजीनियरी, सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह “क” राजपत्रित पद पर दिनांक 15.09.2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त किया जाता है। वह एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

जितेंद्र जुयाल, अवर सचिव

दिनांक 1 मई 2015

सं. ए-12025/8/2013-एस.ए.—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार को उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर में 15,600—39,100/- रुपये के वेतनमान (पीबी-3) तथा 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती आधार पर तकनीकी अधिकारी (उपकरण इंजीनियरी) सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह “क” राजपत्रित पद पर दिनांक 17.07.2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त किया जाता है। वह दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

जितेंद्र जुयाल, अवर सचिव

दिनांक 7 मई 2015

सं. ए-12025/9/2013-एस.ए.—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री संजय चौहान को उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर में 15,600—39,100/- रुपये के वेतनमान (पीबी-3) तथा 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती आधार पर सहायक प्रोफेसर शर्करा इंजीनियरी, सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह “क” राजपत्रित पद पर दिनांक 05.05.2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त किया जाता है। वह एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

जितेंद्र जुयाल, अवर सचिव

दिनांक 11 मई 2015

सं. ए-12025/2/2013-एस.ए.—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव को उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर में

37,400—67,000/— रुपये के वेतनमान (पीबी-3) तथा 8,700/— रुपये के ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती आधार पर मुख्य डिजाइन इंजीनियर, सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह “क” राजपत्रित पद पर दिनांक 21.02.2014 (अपराह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त किया जाता है। वह एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

जितेंद्र जुयाल, अवर सचिव

सं. ए-12025/13/2013-एस.ए.—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा डॉ. लोकेश बाबर को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर में 15,600—39,100/— रुपये के वेतनमान (पीबी-3) तथा 5,400/— रुपये के ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती आधार पर कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कृषि रसायन), सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह “क” राजपत्रित पद पर दिनांक 17.02.2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त किया जाता है। वह दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

2. उनकी नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद में दायर ओ. ए. सं. 1325/2013 के निर्णय के अधधीन होगी।

जितेंद्र जुयाल, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 6 मई 2015

सं. ए-12025/43/2011-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अखलक हुसैन को दिनांक 18 जून, 2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15,600—39,100/— रुपये + 5,400/— रुपये ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. अखलक हुसैन को एन. सी. डी. सी. दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 2015

सं. 19011/4/2015-स्था.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 30.04.2015 के पत्राचार सं. 36/01/2015-ईओ (एसएम.1) के अनुसरण में तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के दिनांक 01.05.2015 के का.ज्ञा.सं. ए-19011/01/2012-एआर (एडी.1) के माध्यम से उनके कार्यमुक्त होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, श्री अरुण झा, भा.प्र.से. (बिहार : 81) को दिनांक 01 मई, 2015 (पूर्वाह्न) से जनजातीय कार्य मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

गोपाल साधवानी, उप सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 मार्च 2015

सं. 4(511)/97-कार्मिक-I—इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उप निदेशक, श्री रुपलेस सोरेंग (कर्मचारी कोड सं. 287) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2015 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

विनोद कुमार, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अप्रैल 2015

सं. पीएफ/239/एनआईसी/2015-प्रशा. I—श्री अपूर्वा कुमार सेन, वैज्ञानिक “एफ”, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से 30 अप्रैल, 2015 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

एल. एस. विस्वनाथन, संयुक्त निदेशक

सं. पीएफ/1661/एनआईसी/2015-प्रशा. I—डॉ. के सनथाना रमन, वैज्ञानिक “जी”, (कर्मचारी कोड सं. 1661), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, केरल राज्य केन्द्र, त्रिवेन्द्रम नई दिल्ली से 30 अप्रैल, 2015 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

एल. एस. विस्वनाथन, संयुक्त निदेशक

सं. पीएफ/71/एनआईसी/2015-प्रशा. I—श्री राजीव प्रकाश सक्सेना, वैज्ञानिक “जी”, (कर्मचारी कोड सं. 71), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से 30 अप्रैल, 2015 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

एल. एस. विस्वनाथन, संयुक्त निदेशक

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 मार्च 2015

सं. 2-3/2014-प्रशासन—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06 फरवरी, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/5/2015-सीएस-I (एस) के तहत चयन सूची वर्ष 2012 के लिए वरिष्ठता कोटा के सापेक्ष केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में उनको शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, डाक विभाग के संवर्ग में सीएसएस की नियमित सहायक सुश्री निर्मला गुप्ता को उसी संवर्ग में सीएसएस के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में 9,300—34,800/— रु. + 4,800/— रु. (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड (पीबी-2) में नियमित आधार पर 05.03.2015 से नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त कर्मचारी की नियुक्ति उपर्युक्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन में वर्णित शर्तों के अधधीन होगी।

विजयलक्ष्मी भारद्वाज, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 मार्च 2015

सं. 2-3/2014-प्रशासन—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09 फरवरी, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/6/2015-सीएस-I (एस) के तहत चयन सूची वर्ष 2013 के लिए वरिष्ठता कोटा के सापेक्ष केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में उनको शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, डाक विभाग के संवर्ग में सीएसएस की नियमित सहायक सुश्री गीता पाठक को उसी संवर्ग में सीएसएस के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में 9,300—34,800/— रु. + 4,800/— रु. (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड (पीबी-2) में नियमित आधार पर 05.03.2015 से नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त कर्मचारी की नियुक्ति उपर्युक्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन में वर्णित शर्तों के अधधीन होगी।

मनोरंजन सामल, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2015

सं. ई(जी.पी.) 2013/3/16 (PRO)—राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के जन संपर्क विभाग के निम्नलिखित ग्रुप-बी अधिकारी को दिनांक 23-02-2015 से ग्रुप ‘ए’ के वरिष्ठ वेतनमान में वरिष्ठ जन संपर्क अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

2014-15 के लिए पैल

श्री एम. भूपति (अ.ज.जा.) (दक्षिण रेलवे में कार्यरत)

सुमन शर्मा
निदेशक, स्था. (राज.पदो.)
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी.पी.) 2012/3/8(यातायात)—इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21.7.2014 के आंशिक आशोधन में राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के यातायात सेवा के निम्नलिखित 121 ग्रुप-बी अधिकारियों जोकि निम्न दर्शाये गए रेलों से हैं, की 04.04.2014 से भारतीय रेल यातायात सेवा (आई. आर. टी एस.) के ग्रुप-ए/कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

2012-2013 के लिए पैल

क्र.सं. अधिकारियों के नाम	रेलवे
1. बिरेन्द्र मोहन	पू.म.रे.
2. वी.वी.रमणमूर्ती	द.म.रे.
3. प्रभाकर मिश्रा	पूर्वो.रे.
4. आर.सी. श्रीवास्तव	पूर्वो.रे.
5. संजय घोष	द.पू.रे.
6. एच.के. मोहन्ती	द.पू.रे.

क्र.सं. अधिकारियों के नाम	रेलवे
7. बी.के. राउत	पूर्वतट रे.
8. एल. डी. बेहरा	पूर्वतट रे.
9. देवराज नायक	पूर्वतट रे.
10. एन.के. जयसिंह	पूर्वतट रे.
11. बी. डैनियल क्रिस्टोफर	द.म.रे.
12. डी.आर. पॉल	पूर्वतट रे.
13. पी. एस. सील	पूर्वो.सी.रे.
14. डी.डी. चौधुरी	पूर्वो.सी.रे.
15. ए. झा	पूर्वो.सी.रे.
16. विजय सिंह (अ.जा.)	पूर्वो.रे.
17. आर. एन. झा	पूर्वो.रे.
18. संजीव सेठी	पूर्वो.रे.
19. अरुन सक्सेना	पूर्वो.रे.
20. शिखा रानी रॉय	पूर्वो.सी.रे.
21. विरेन्द्र कुमार	उ.रे.
22. बी.के. साहू	द.पू.रे.
23. एस. के. शुक्ला	प.रे.
24. के.के. पाठक	द.पू.म.रे.
25. ए. एम. मसराम (अ.ज.जा.)	द.पू.म.रे.
26. ए.के. सिंहा (अ.ज.जा.)	द.पू.रे.
27. जयदेव मंडल (अ.जा.)	द.पू.रे.
28. आशिष मुखर्जी	द.पू.रे.
29. ए. लक्ष्मीनारायणारेड्डी	द.म.रे.
30. ए. मल्लेश्वरा राव	द.म.रे.
31. दीपंकर दत्ता	पू.रे.
32. एस. सेनगुप्ता	पूर्वो.सी.रे.
33. पी. कुमार (अ.जा.)	पूर्वो.सी.रे.
34. डी. ठकुरिया	पूर्वो.सी.रे.
35. अलकनंदा सरकार	पूर्वो.सी.रे.
36. बी. के. मिश्रा	पूर्वो.सी.रे.
37. सी. पद्मादास	द.रे.
38. शंकर मुखर्जी	पूर्वो.सी.रे.
39. पी.एल. भुटिया (अ.ज.जा.)	पूर्वो.सी.रे.
40. अमर कुमार दास (अ.जा.)	पूर्वो.सी.रे.
41. रामवीर सिंह (अ.जा.)	उ.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
42. जी.एल. मीणा (अ.ज.जा.)	उ.रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
43. राम नाथ मीणा (अ.ज.जा.)	उ.रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
44. भूपाल एस. ब्रिजवाल (अ.ज.जा.)	पूर्वो.रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)

क्र.सं. अधिकारियों के नाम	रेलवे
45. लल्लन प्रसाद (अ.जा.)	पूर्वो.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
46. रामअवतार (अ.जा.)	उ.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
47. बी. के. चौधरी (अ.जा.)	पू.म.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
48. एस. गोविन्द सामी (अ.जा.)	द.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
49. के.एल. महावर (अ.जा.)	प.म.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
50. राजिन्दर प्रसाद पाण्डे	उ.रे.
51. अजय भारद्वाज	उ.रे.
52. एस.एस. रायत	उ.रे.
53. तरुन शुक्ला	पूर्वो.रे.
54. यश पाल सिंह	पूर्वो.रे.
55. सत्यवीर श्रीवास्तव	पूर्वो.रे.
56. ज्योति भटेजा	उ.रे.
57. बाबूलाल मचाया (अ.जा.)	प.म.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)

2013-2014 के लिए पैनाल

1. मंजीत सिंह	उ.रे.
2. पी. श्रीनिवास कुमार	द.म.रे.
3. एन. सी. बिश्वास (अ.जा.)	द.पू.रे.
4. यादव कैलाश	प.रे.
5. वी.ए. अय्यर	प.रे.
6. वी.के. जौहरी	प.रे.
7. जितेन्दर के. अग्रवाल	प.रे.
8. एस.के. यादव	प.रे.
9. संजय श्रीवास्तव	प.रे.
10. सी. एस. कुरील (अ.जा.)	प.रे.
11. अशोक कुमार अग्रवाला	द.पू.रे.
12. मानसरंजन आचार्य	द.पू.रे.
13. तपन कुमार भट्टाचारजी	द.पू.रे.
14. आर.वी.के. सिंह	पूर्व म.रे.
15. बिनोद झा	पूर्व म.रे.
16. जहर बसु	द.पू.रे.
17. आर.एन.डे	पूर्व म.रे.
18. पी.के. सामल	द.पू.रे.
19. वी. वेंकटराज	द.रे.
20. मोहम्मद निजार	द.रे.
21. पी.एल. अशोक कुमार	द.रे.
22. ए.के. खरे	प.म.रे.

क्र.सं. अधिकारियों के नाम	रेलवे	
23. एन.के. वाथरे	प.म.रे.	
24. एस. ब्रह्मो (अ.ज.जा.)	पूर्वो.सी.रे.	
25. सुबीमल सेन	पूर्वो.सी.रे.	
26. आर.के. शर्मा	म.रे.	
27. के. वी. थॉमस	म.रे.	
28. आर.के. मोदी	म.रे.	
29. के.के. मिश्रा	म.रे.	
30. के.ई. अन्सार	द.प.रे.	
31. एम.आर. बालामुरुगा दास	द.प.रे.	
32. एस. इकबाल अहमद	द.प.रे.	
33. एम. श्रीकान्त (अ.ज.जा.)	द.प.रे.	
34. वाई.पी. त्रिपाठी	उ.रे.	
35. राज किशोर	पूर्व म.रे.	
36. हरीश गांधी	उ.रे.	
37. एस.आर. बिश्वास (अ.जा.)	द.पू.म.रे.	
38. निरंजन घोष	द.पू.म.रे.	
39. जे. पूर्ती (अ.ज.जा.)	द.पू.म.रे.	
40. आर. जे. शर्मा	द.पू.म.रे.	
41. शेर सिंह	उ.रे.	
42. पी.सी. झडी	उ.रे.	
43. ए.के. नौलखा	उ.रे.	
44. राकेश मेहता	उ.रे.	
45. देवी सिंह (अ.जा.)	उ.रे.	
46. यश कुमार (अ.जा.)	उ.रे.	
47. जे.पी. सिंह	पूर्वो. रे.	
48. लालता राम (अ.जा.)	पूर्वो. रे.	
49. डी.एस. मीणा (अ.ज.जा.)	उ.रे.	(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
50. डी.डी. अहीरवार (अ.जा.)	प.म.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
51. मुकुल बासुमातरी (अ.ज.जा.)	पूर्वो.सी. रे.	(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
52. वी. सुधाकर नायक (अ.ज.जा.)	द.प.रे.	(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
53. कमल देव दास (अ.जा.)	पू.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
54. बी.एल. कोरी (अ.जा.)	म.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
55. टी.जी. जाधव (अ.जा.)	म.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
56. मानिक राम (अ.जा.)	म.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
57. तेक बहादुर (अ.जा.)	पूर्वो.सी.रे.	(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
58. जे.ए. आजमी	पूर्वो. रे.	
59. निर्मल कुमार सिन्हा	पूर्वो. रे.	
60. ए.के. सक्सेना	पूर्वो.रे.	

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम	रेलवे
61.	राजन कुमार पूर्वी रे.	
62.	जे. अरुन्धती (अ.ज.जा.)	द.रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
63.	के.वी. रमन्ना (अ.जा.)	द.पू.म.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
64.	वी.जी. श्यामकुले (अ.जा.)	द.पू.म.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)

2. 2013-14 के पैनल में क्र. सं. 2, 3 व 4 में उल्लिखित अधिकारियों, जिनके ऊपर आदेश दिनांक 12.03.2014, 24.03.2014 व 06.03.2014 द्वारा दंड अधिरोपित किया गया है, को कनिष्ठ वेतनमान में वित्तीय लाभ दंडों के खत्म होने के पश्चात ही देय होगा।

3. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय, उड़ीसा (कटक) में दायर की गई WP (A) No.4365/2014 तथा कैट/इलाहाबाद में दायर की गई याचिका संख्या 220/2014 के परिणाम के अध्यधीन की जाती है।

सुमन शर्मा
निदेशक, स्था. (राज.पदो.)
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक मई 2015

सं. ई (ओ) III-2015/आरएन/04—श्री बि.वि.एल. नारायणा, भारतीय रेल यातायात सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी (जन्म तिथि : 17.02.1960 एवं डीआईटीएस : 22/12/86) का क्रिस में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 06.04.2015 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2015

सं. ए-12026/02/2014-एसएस-I—केन्द्र सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7घ की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यमुनानगर, हरियाणा में पूर्व में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत श्री हरिश गुप्ता को एतद्वारा प्रथम अप्रैल, 2015 (अपराह्न) से, 05 वर्ष की अवधि के लिए, प्रतिनियुक्ति आधार पर 67,000—79,000/— रुपये के वेतनमान में पीठासीन अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण, दिल्ली के पद पर नियुक्त करती हैं।

अजय मलिक, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 11th May 2015

No. 15011/52/2015-HR.III—The President, under Section 7(1) of the Protection of Human Rights Act, 1993, is pleased to authorize Justice Shri Cyriac Joseph, Member, National Human Rights Commission, to act as the Chairperson of the National Human Rights Commission with effect from 13th May, 2015, until the appointment of a new Chairperson in the NHRC to fill such vacancy.

VIJAY SINGH RANA, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION
(DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES)

New Delhi-110001, the 17th December 2014

No. A-19013/08/2014-AR(Ad.I)—The President is pleased to appoint Ms. Alpana Shukla Rao, (ITS:1994), as Director on central deputation in Department of Administrative Reforms & Public Grievances w.e.f. 17th December, 2014 (FN) for a period of five years or until further orders whichever is earlier.

ALOK JAGBHARIA, Under Secy.

The 9th April 2015

No. A-19014/03/2014-AR(Ad.I)—In pursuance to Department of Personnel & Training's Order No. 5/3/2014-CS.I(U) dated 13th March, 2015, Shri D. Banerjee, Under Secretary is taken on the strength of Department of Administrative Reforms & Public Grievances as Under Secretary w.e.f. 01.04.2015 (FN).

ALOK JAGBHARIA, Under Secy.

The 24th April 2015

No. A-19014/01/2015-AR(Ad.I)—In pursuance to Department of Personnel & Training's Order No. 5/3/2015-CS.I(U) dated 9th April, 2015, the President is pleased to appoint Shri Din Dayal, Under Secretary on ad hoc basis in the Department of Administrative Reforms & Public Grievances with effect from the forenoon of 09.04.2015 until further orders.

ALOK JAGBHARIA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 30th April 2015

No. A-35011/7/2013-Ad.ED—The President of India is pleased to appoint Shri Sanjay Shrinet, IRS(C&CE:1993) as Special Director of Enforcement, Directorate of Enforcement at Chandigarh, on deputation basis in the Pay Band 4 of Rs. 37,400—67,000/- + G.P. Rs. 10,000/-, for a period of 5 (five) years w.e.f. 21.1.2015(AN) to 21.1.2020(AN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 6th April 2015

No. A. 12011/5/2012-Admn.II—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 5/3/2015 – CS.I (U) dated 24.03.2015, the President is pleased to appoint Smt. Shoba Basil, Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) to Grade I (Under Secretary) of CSS purely on ad-hoc basis in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from 27.03.2015 for a period upto 31.05.2015 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2. The aforesaid appointment is subject to the conditions mentioned in the Department of Personnel & Training Order referred to above.

ABHAY KUMAR SHARAN, Under Secy.

No. A. 12011/03/2015-Admn.II—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 4/2/2015-CS-I (D) dated 27/02/2015, the President is pleased to appoint Shri Ram Prakash Puri, Under Secretary of the Central Secretariat Services (CSS) to the Selection Grade (Deputy Secretary) in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with the grade pay of Rs. 7,600/- w.e.f. the forenoon of 2nd March, 2015 on ad-hoc basis, for a period upto 30.06.2015 or until further orders, whichever is earlier.

ABHAY KUMAR SHARAN, Under Secy.

The 16th April 2015

No. A. 19011/03/2015-Admn.II—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 18/8/2014-EO(MM-I) dated 17/03/2015, the President is pleased to appoint Shri Rishikesh Singh, IPoS:2000, as Director in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, in the pay band of Rs. 37,400—67,000/- + 8,700/- w.e.f. the forenoon of 1st April, 2015, for a period of five years upto 31.03.2020 or until further orders, whichever is earlier.

ABHAY KUMAR SHARAN, Under Secy.

The 23rd April 2015

No. A. 19011/05/2015- Admn.II—In pursuance of Department of Personnel & Training Office Order No. A-33/05/2015 EO (SM-I) (8) dated 01.04.2015, the President is pleased to appoint Shri S. Selvakumar, IAS (KN:97) as Joint Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 15.04.2015 for the balance period of his Central deputation i.e. upto 03.07.2019 or until further orders, whichever is earlier.

ABHAY KUMAR SHARAN, Under Secy.

No. A. 12011/03/2015 - Admn.II—In pursuance of Department of Personnel & Training Office Order No. A-33/05/2015 EO (SM-I) (9) dated 01.04.2015, the President is pleased to appoint Shri Raj Kumar, IAS (GJ:87) as Joint Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 20.04.2015 for a period of five years i.e. upto 19.04.2020 or until further orders, whichever is earlier.

ABHAY KUMAR SHARAN, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 24th April 2015

No. /2015, F.No.A-46011/05/2006-Estt.—On the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Sh. Vijay Dhar Choubey, Assistant Director Gr.I (Costing) to the post of Deputy Director (Costing), Gr. A Gazetted, in PB-3 of Rs.15,600-39,100 plus Grade pay of Rs.6600 on promotion basis in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai, with effect from 01st April, 2015 (F/N). He will be on probation for a period of two years from 01.04.2015.

ISHWAR SHARAN, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION (DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 7th April 2015

No. A-22012/4/2014-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Subhashish Panda, IAS (HP:1997) as Joint Secretary in the Department of Food & Public Distribution with effect from the forenoon of 7th April, 2015 in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/- for the remaining five year period of his central deputation i.e. upto 19.02.2019 or until further orders, whichever is earlier.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

The 16th April 2015

No. A-12022/1/2014-E.I.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M.No. 9/1/2015-EO (MM-I) dated 06.02.2015, the President is pleased to appoint Smt. Simerjit Kaur, IDAS (1999) as Director in the Department of Food

& Public Distribution with effect from the forenoon of 16th April, 2015 in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

The 28th April 2015

No. A-12022/1/2014-E.I.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 9/12/2015-EO (MM-I) dated 17.03.2015, the President is pleased to appoint Shri Dinesh Kumar Gupta, ITS (2000) as Director in the Department of Food & Public Distribution with effect from the forenoon of 27th April, 2015 in the Pay Band-4 of Rs 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs.8,700/- for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

The 5th May 2015

No. A-12015/02/2015-E.I.—The President is pleased to appoint the following officials of Central Secretariat Service (CSS) of the Cadre of Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Food & Public Distribution) as Section Officer on regular basis against the Select List Year 2014 with effect from the date of this notification:

S. No.	Name
1.	Smt. Ranjana Sharma
2.	Smt. C Baby Usha
3.	Smt. Vijay Bamba
4.	Shri Jagdish Kumar

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

No. A-43011/3/2008-E.I.—In pursuance of Ministry of Statistics and Programme Implementation's Order No.12016/1/2014-SSS dated 06.04.2015 and 16.04.2015, the President is pleased to appoint the following officers of SSS to the post of Senior Statistical Officer of SSS on regular basis in the Department of Food & Public Distribution in PB-2 of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4600/- with effect from the forenoon of 07.04.2015 against the Vacancy for the Calendar Year as mentioned against their names:-

S. No.	Name of the officer (Sh./Ms./Smt.)	Vacancy Calendar Year
1	Awanish Kumar	2012
2	Mithilesh Kumar Singh	2013

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 30th April 2015

No.A-12025/8/2013-SA(Pt.)—Consequent upon the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Brajesh Singh, to the post of Technical Officer (Instrument Engineering), a General Central Service, Group 'A' Gazetted post, in the pay scale of Rs.15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs.5,400/- on direct recruitment basis, in the National Sugar Institute, Kanpur, a subordinate office of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, with effect from 1.7.2014 (F/N) and until further orders. He will be on probation for a period of two years.

JITENDER JUYAL, Under Secy.

No.A-12025/9/2013-SA(Pt.)—Consequent upon the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Vinay Kumar, to the post of Assistant Professor of Sugar Engineering, a General Central Service, Group 'A' Gazetted post, in the pay scale of Rs.15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs.6,600/- on direct recruitment basis, in the National Sugar Institute, Kanpur, a subordinate office of Ministry of Consumer Affairs, Food and

Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, with effect from 15.9.2014 (F/N) and until further orders. He will be on probation for a period of one year.

JITENDER JUYAL, Under Secy.

The 1st May 2015

No.A-12025/8/2013-SA—Consequent upon the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Virendra Kumar, to the post of Technical Officer (Instrument Engineering), a General Central Service, Group 'A' Gazetted post, in the pay scale of Rs.15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs.5,400/- on direct recruitment basis, in the National Sugar Institute, Kanpur, a subordinate office of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, with effect from 17.7.2014 (F/N) and until further orders. He will be on probation for a period of two years.

JITENDER JUYAL, Under Secy.

The 7th May 2015

No.A-12025/9/2013-SA—Consequent upon the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Sanjay Chauhan to the post of Assistant Professor of Sugar Engineering, a General Central Service, Group 'A' Gazetted post, in the pay scale of Rs.15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs.6,600/- on direct recruitment basis, in the National Sugar Institute, Kanpur, a subordinate office of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, with effect from 05.05.2014 (F/N) and until further orders. He will be on probation for a period of one year.

JITENDER JUYAL, Under Secy.

The 11th May 2015

No.A-12025/2/2013-SA—Consequent upon the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Jai Prakash Srivastava to the post of Chief Design Engineer, a General Central Service, Group 'A' Gazetted post, in the pay scale of Rs.37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs.8,700/- on direct recruitment basis, in the National Sugar Institute, Kanpur, a subordinate office of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, with effect from 21.02.2014 (A/N) and until further orders. He will be on probation for a period of one year.

JITENDER JUYAL, Under Secy.

No.A-12025/13/2013-SA—Consequent upon the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Lokesh Babar to the post of Junior Scientific Officer (Agriculture Chemistry), a General Central Service, Group 'A' Gazetted post, in the pay scale of Rs.15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs.5,400/- on direct recruitment basis, in the National Sugar Institute, Kanpur, a subordinate office of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, with effect from 17.02.2014 (F/N) and until further orders. He will be on probation for a period of two years.

2. His appointment shall be subject to the outcome of the O.A. No.1325/2013 filed at CAT, Allahabad.

JITENDER JUYAL, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 6th May 2015

No. A-12025/43/2011-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Akhlak Hussain in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 18th June, 2013 until further orders. Dr. Akhlak Hussain is posted as Medical Officer under National Centre of Disease Control, Delhi. He will be on probation for a period of two years from the date of his appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 1st May 2015

No. 19011/4/2015-Estt.—In pursuance of DoPT Communication No.36/01/2015-EO(SM.I) dated 30.04.2015 and consequent upon his relieving from Department of Administrative Reforms & Public Grievances vide their Office Order No. A-19011/01/2012-AR (Ad.I) dated 01.05.2015, the President is pleased to appoint Shri Arun Jha, IAS(BH:81) as Secretary in the Ministry of Tribal Affairs with effect from the forenoon of 1st May, 2015.

GOPAL SADHWANI, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 31st March 2015

No. 4(511)/97-P.I.—On attaining the age of superannuation Shri Ruples Soreng, Deputy Director, (Emp. Code - 287) in the Department of Electronics & Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology retires from service w.e.f. 31.03.2015.

VINOD KUMAR, Dy. Dir.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 30th April 2015

No. PF/239/NIC/2015/Adm-I—Shri Apurba Kumar Sen, Scientist “F” (Emp. Code: 239) of National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 30th April, 2015 and he stands relieved of his duties from the same day.

L S VISWANATHAN, Jt. Dir. (Admin.)

No. PF/1661/NIC/2015/Adm-I—Dr. K Santhana Raman, Scientist “G” (Emp. Code: 1661) of National Informatics Centre, Kerala State Centre, Trivandrum is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 30th April, 2015 and he stands relieved of his duties from the same day.

L S VISWANATHAN, Jt. Dir. (Admin.)

No. PF/71/NIC/2015/Adm-I—Shri Rajiv Prakash Saxena, Scientist “G” (Emp. Code: 71) of National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 30th April, 2015 and he stands relieved of his duties from the same day.

L S VISWANATHAN, Jt. Dir. (Admin.)

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 5th March 2015

No. 2-3/2014-Admn.—Consequent upon her inclusion in the Select List of Section Officers’ Grade of Central Secretariat Service against Seniority Quota for the Select List year 2012 vide Department of Personnel & Training’s O.M No. 6/5/2015-CS.I(S) dated 6th February, 2015, the President is pleased to appoint Ms. Nirmala Gupta, regular Assistant of CSS in the cadre of Department of Posts to the Section Officers’ Grade of CSS in the same cadre in the Pay Band (PB-2) of ₹ 9,300—34,800/- + ₹ 4,800/- (Grade Pay) on regular basis w.e.f 05.03.2015.

2. The appointment of the above officer would be subject to the conditions mentioned in above mentioned DoP&T’s O.M.

VIJAYALAKSHMI BHARADWAJ, Asstt. Dir. Gen. (Admn.)

New Delhi-110001, the 23rd March 2015

No. 2-3/2014-Admn.—Consequent upon her inclusion in the Select List of Section Officers’ Grade of Central Secretariat Service against Seniority Quota for the Select List year 2013 vide Department of Personnel & Training’s O.M No. 6/6/2015-CS-I(S) dated 9th February 2015, the President is pleased to appoint Ms. Geeta Pathak, regular Assistant of CSS

in the cadre of Department of Posts to the Section Officers' Grade of CSS in the same cadre in the Pay Band (PB-2) of ₹ 9,300—34,800/- + ₹ 4,800/- (Grade Pay) on regular basis w.e.f 05.03.2015.

2. The appointment of the above officer would be subject to the conditions mentioned in above mentioned DoP&T's O.M.

MANORANJAN SAMAL, Asstt. Dir. Gen (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 21st April 2015

No. E(GP)2013/3/16(PRO)—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'B' officer of the Public Relations Department of Indian Railways as Senior Public Relations Officer in Group 'A' / Senior Scale on regular basis with effect from 23-02-2015.

PANEL FOR 2014-15

Shri M. BHOOPATHY (ST) (working in Southern Railway)

SUMAN SHARMA, Dir. Estt. (GP)
(Railway Board)

No. E(GP)2012/3/8 (Traffic)—In partial modification of this Ministry's notification of even number dated 21.7.2014, the President is pleased to appoint the under-mentioned 121 Group 'B' officers of Traffic Department of Indian Railways belonging to different Zonal Railways as mentioned against each, to Group 'A' / Junior Scale of Indian Railway Traffic Service (IRTS), with effect from 04.04.2014:-

PANEL FOR 2012-13

S.No.	Name of officer	Rly
1	BIRENDRA MOHAN	ECR
2	V.V. RAMANAMURTHY	SCR
3	PRABHAKAR MISHRA	NER
4	R.C. SRIVASTAVA	NER
5	SANJAY GHOSH	SER
6	H.K. MOHANTY	SER
7	B.K.ROUTH	ECOR
8	L.D.BEHERA	ECOR
9	DEBARAJ NAYAK	ECOR
10	N.K.JAYASINGH	ECOR
11	B. DANIEL CHRISTOPHER	SCR
12	D.R.PAUL	ECOR
13	P.S. SEAL	NFR
14	D.D.CHOUDHURY	NFR
15	A. JHA	NFR
16	VIJAY SINGH(SC)	NER
17	R.N. JHA	NER
18	SANJEEV SETHI	NER
19	ARUN SAXENA	NER
20	SIKHA RANI ROY	NFR
21	VIRENDER KUMAR	NR
22	B.K.SAHU	SER
23	S.K. SHUKLA	WR

S.No.	Name of officer	Rly	
24	K.K. PATHAK	SECR	
25	A.M. MASRAM(ST)	SECR	
26	A.K.SINGHA(ST)	SER	
27	JAYDEV MONDAL(SC)	SER	
28	ASIS MUKHERJEE	SER	
29	A. LAKSHMINARAYANA REDDY	SCR	
30	A. MALLESWARA RAO	SCR	
31	DIPANKAR DUTTA	ER	
32	S.SENGUPTA	NFR	
33	P.KUMAR(SC)	NFR	
34	D.THAKURIA	NFR	
35	ALKANANDA SARKAR	NFR	
36	B.K.MISRA	NFR	
37	C.PADAMADAS	SR	
38	SANKAR MUKHERJEE	NFR	
39	P.L.BHUTIA(ST)	NFR	
40	AMAR KR. DAS(SC)	NFR	
41	RAMVIR SINGH(SC)	NR	Promoted against SC vacancy
42	G.L. MEENA(ST)	NR	Promoted against ST vacancy
43	RAM NATH MEENA(ST)	NR	Promoted against ST vacancy
44	BHUPAL S.BRIJWAL(ST)	NER	Promoted against ST vacancy
45	LALLAN PRASAD(SC)	NER	Promoted against SC vacancy
46	RAM AVTAR(SC)	NR	Promoted against SC vacancy
47	B.K.CHAUDHARY(SC)	ECR	Promoted against SC vacancy
48	S.GOVINDA SAMY(SC)	SR	Promoted against SC vacancy
49	K.L. MAHAWAR(SC)	WCR	Promoted against SC vacancy
50	RAJINDER PD.PANDEY	NR	
51	AJAY BHARDWAJ	NR	
52	S.S. RAWAT	NR	
53	TARUN SHUKLA	NER	
54	YASH PAL SINGH	NER	
55	SATYAVIR SRIVASTAVA	NER	
56	JYOTI BHATEJA	NR	
57	BABULAL MACHAYA(SC)	WCR	Promoted against SC vacancy

PANEL FOR 2013-14

1	MANJEET SINGH	NR
2	P. SRINIVASA KUMAR	SCR
3	N.C. BISWAS(SC)	SER
4	YADAV KAILASH	WR
5	V.A.IYER	WR
6	V.K. JOHRI	WR
7	JITENDRA K .AGARWAL	WR
8	S.K.YADAV	WR

S.No.	Name of officer	Rly	
9	SANJAY SHRIVASTAVA	WR	
10	C.S.KURIL(SC)	WR	
11	ASHOK KR. AGRAWALLA	SER	
12	MANASRANJAN ACHARYA	SER	
13	TAPAN KR. BHATTACHARJEE	SER	
14	R.V.K.SINGH	ECR	
15	BINOD JHA	ECR	
16	JAHAR BASU	SER	
17	R.N.DEY	ECR	
18	P.K. SAMAL	SER	
19	V.VENKATARAJ	SR	
20	MOHAMED NIZAR	SR	
21	P.L.ASHOK KUMAR	SR	
22	A.K.KHARE	WCR	
23	N.K.WATHRE	WCR	
24	S.BRAHMO(ST)	NFR	
25	SUBIMAL SEN	NFR	
26	R.K. SHARMA	CR	
27	K.V. THOMAS	CR	
28	R.K. MODI	CR	
29	K.K. MISHRA	CR	
30	K.E.ANSAR	SWR	
31	M.R.BALAMURUGA DAS	SWR	
32	S.IQBAL AHMED	SWR	
33	M.SRIKANTA(ST)	SWR	
34	Y.P. TRIPATHI	NR	
35	RAJ KISHORE	ECR	
36	HARISH GANDHI	NR	
37	S.R.BISWAS(SC)	SECR	
38	NIRANJAN GHOSH	SECR	
39	J.PURTY(ST)	SECR	
40	R.J.SHARMA	SECR	
41	SHER SINGH	NR	
42	P.C. DUDI	NR	
43	A.K. NAULAKHA	NR	
44	RAKESH MEHTA	NR	
45	DEVI SINGH(SC)	NR	
46	YASH KUMAR(SC)	NR	
47	J.P.SINGH	NER	
48	LALTA RAM(SC)	NER	
49	D.S. MEENA(ST)	NR	Promoted against ST vacancy
50	D.D.AHIRWAR(SC)	WCR	Promoted against SC vacancy
51	MUKUL BASUMATARY(ST)	NFR	Promoted against ST vacancy
52	V.SUDHAKARA NAIK(ST)	SWR	Promoted against ST vacancy

S.No.	Name of officer	Rly	
53	KAMAL DEO DAS(SC)	ER	Promoted against SC vacancy
54	B.L. KORI(SC)	CR	Promoted against SC vacancy
55	T.G. JADHAV(SC)	CR	Promoted against SC vacancy
56	MANIK RAM(SC)	CR	Promoted against SC vacancy
57	TEK BAHADUR(SC)	NFR	Promoted against SC vacancy
58	J.A.AZMI	NER	
59	NIRMAL KR.SINHA	NER	
60	A.K. SAXENA	NER	
61	RAJAN KUMAR	NER	
62	J. ARUNDHATI(ST)	SR	Promoted against ST vacancy
63	K.V. RAMANA(SC)	SECR	Promoted against SC vacancy
64	V.G.SHYAMKULE(SC)	SECR	Promoted against SC vacancy

2. The officers mentioned at S.No. 2, 3 and 4 of 2013-14 panel would, however, be entitled to monetary benefits in Junior Scale after the currency of punishments imposed on them vide orders dated 12.3.2014, 24.3.2014 and 6.3.2014 respectively is over.

3. The appointment of the above officers is, however, subject to the final outcome of WP(C) No. 4365/2014 pending before the High Court of Orissa, Cuttack and O.A. No. 220/2014 pending before CAT/ALD.

SUMAN SHARMA, Dir. Estt. (GP)
(Railway Board)

New Delhi, the May 2015

No. E(O)III-2015/RN/04—Consequent upon his permanent absorption in CRIS, Shri B.V.L. Narayana, a Senior Administrative Grade officer of the Indian Railway Traffic Service (DOB: 17/02/60, DITS: 22/12/86), has resigned from Railway service with effect from 06/04/2015.

P C GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 30th April 2015

No. A-12026/02/2014-SS-I—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri Harish Gupta, earlier working as Additional District and Sessions Judge, Yamunanagar, Haryana to the post of Presiding Officer, Employees' Provident Fund Appellate Tribunal (EPFAT), Delhi in the pay scale of Rs. 67000-79000/- on the deputation basis, for a period of 05 years w.e.f. 1st April, 2015(AN).

AJAY MALIK, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015
www.dop.nic.in